

[currentbody.com](https://currentbody.com)

CURRENTBODY|skin LED Hand Perfector is manufactured by  
CurrentBody.com Ltd, D6, Stanley Green Business Park, Commercial Avenue, Cheadle Hulme, SK8 6QH, United Kingdom.  
CurrentBody BV, Naritaweg 2, 1437EL Rozenburg, Netherlands

Version 2 March 23

# CURRENTBODY|skin™

## LED HAND PERFECTOR



### USER GUIDE AND MANUAL

Includes important safety information.

Read all instructions prior to use.

**PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE**

## CONTENTS

CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector	02
What is in the box	03
Important safety information	04
Warnings	05
Cautions	06
Contraindications	07
Device overview	07
How to use	09
Warranty	12
Specification	13
Symbols explained	13
Safety and emc	15
Manufacturer information	18
Français	19
Deutsch	24
Italiano	29
Español	34
日本語	40
简体中文	45
繁體中文	49
한국인	53
Русский	58
हिन्दी	63

# Welcome to CurrentBody Skin™ LED Hand Perfector

Established in 2009, CurrentBody is the world's only online retailer dedicated to home-use beauty devices. As the first company to recognise devices as one of the fastest growing trends in the world of beauty, we have unrivalled expertise in selecting at-home devices that are science-backed and clinically proven, offering our customers the ultimate choice of devices that treat a wide range of concerns, including anti -ageing, cleansing and hair removal.

Underpinning our range of innovative beauty technology is expert education to help our customers choose the right device for them and excellent customer service.

Our highly trained beauty device experts are on hand to offer impartial advice and answer your questions in person, as well as how-to videos and top tips available throughout our website and social media channels.

## What's in box

### System Includes:

CurrentBody Skin™  
LED Hand  
Perfector



Storage bag



Power supply and  
country specific adaptors



## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Do not operate the device where it could come in contact with water.
- Do not use the device with a power adapter that is damaged or faulty. Do not harshly bend or abuse the charging cord.
- Do not attempt to take the device apart. The device is not serviceable by the user. This will void the warranty.
- Stop using the device immediately if you think it is defective.

### Customer Care

Please contact us via the website if you have any questions or you need any advice.



## WARNINGS

- This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use on infants or children.
- Please consult your doctor prior to use if you are, or suspect you are, pregnant or are breastfeeding.
- Please consult your doctor prior to use if you have, or suspect you have, cancer.
- Do not use the device if it has fallen into water. Do not use the device if it is wet.
- Do not look directly into the lights as this may cause temporary discomfort.
- Do not use if your skin is red or swollen from a previous treatment.
- Do not use the device to treat skin that is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- No modification of this equipment is allowed.
- Do not use the device if the top is not secured to the base.

## CAUTIONS

- Discontinue use if the device overheats or becomes uncomfortably hot.
- Always unplug the device after use.
- Do not store the device in direct sunlight or in a location with temperatures over 100 Fahrenheit as this may cause damage to the plastic coating.
- Do not attempt to open or repair the device or plug.
- Do not drop the device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in skin injury.
- If you have any concerns about the skin you are treating, you should cease use and check with your doctor.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

## CONTRAINDICATIONS

### Ask your doctor prior to using if you:

1. Are taking prescription or over-the-counter drugs known to cause light sensitivity. You can find more information and a list of drugs that can cause light sensitivity at:  
<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
2. Have any suspicious or cancerous lesions.
3. Have any photosensitive disorders or any genetic conditions of the eye.

### Test yourself for light sensitivity prior to use:

1. Power on your device.
2. Wash and dry your hands, and then conduct a full 10-minute treatment.
3. After the treatment is complete, visually check the area. If the area has turned red and lasts for more than 2 hours, your skin has a sensitivity to light. Return the device to CurrentBody within 14 days for a full refund.


## DEVICE OVERVIEW

CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector is a Light Emitting Diode (LED) device that harnesses energy to help reduce the signs of ageing. The device incorporates natural light energy in the, Red (633nm), and Near Infrared (830nm) spectrums that can soothe and soften, to help achieve youthful, radiant hands.

## How it works

CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector is programmed to automatically switch off after the recommended 10 minutes treatment so it is very easy to use. The LED wavelengths from the device penetrate the skin. With daily treatments you can achieve professional results in the comfort of your own home.

Light Wavelength Diagram



## HOW TO USE

### Set up:

1. Unpack your CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector.
2. Select the appropriate plug for your territory and plug into a mains outlet.

### Instructions for Use:

1. You must conduct a sensitivity test before use (page 7).
2. Wash and fully dry your hands prior to use.
3. Switch on the device and place your hands in the device.
4. CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector features an automatic shutoff function after completion of a 10-minute treatment.
5. Wipe the device clean (see cleaning instructions).
6. Place the device into the protective storage bag.

## Helpful Tips For best results:

- Use daily.
- Use the device on clean, dry skin only.
- Do not use the device after the application of creams that contain SPF as this could block light penetration.
- Immediately following treatment, apply a serum or moisturiser of your choice.

## Maintenance:

1. This device has no serviceable parts. Users should not attempt to service the device as this will damage it and void the warranty.
2. Device includes only an ON/OFF button. All settings are set to the factory setting.

## Cleaning:

1. Turn device off and unplug from any power source.
2. Wipe the tops of the LEDs with alcohol wipes or damp cloth to remove any residue from skin oils after each use.
3. Clean the device body by using damp or microfibre cloth.
4. Allow the device to dry completely prior to use.

## Troubleshooting:

### System is not turning on:

- a. Please ensure the device is firmly plugged in to a mains outlet.
- b. If the device still does not work, please get in touch with CurrentBody via the website.

### System shuts off abruptly, prior to completion of 10-minute treatment:

- a. System is designed to shut off automatically after 10 minutes.
- b. System may shut off after multiple repeated uses if the device exceeds desired temperature. Allow the device to cool for several minutes and try again.

### Some lights appear turned off:

The infrared (IR) light spectrum is not visible to the human eye. These lights will look as if they are not on, but they are operating properly. If the red, visible lights are on, then the device is operating as designed.

### The device does not switch off after a 10 minutes treatment:

The device may be faulty. Please get in touch with CurrentBody via the website.

### The LEDs flicker during use:

The device may be faulty. Please get in touch with CurrentBody via the website.

## WARRANTY

Under normal use this product is guaranteed for 2 years after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship. This warranty extends only to the original purchaser. If the product should become faulty within the warranty period, contact CurrentBody.




- CurrentBody reserves the right to repair a defective product.
- CurrentBody reserves the right to replace a defective product with the most compatible product currently available.
- This warranty does not cover damage caused by the following:
  - Accident, misuse, abuse or alteration
  - Servicing by unauthorised persons
  - Connection to incorrect power sources
  - Use with unauthorised accessories

CurrentBody shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this product. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed. If the product is defective within the warranty period please contact CurrentBody.

## SPECIFICATION

Specification	
Produce name	LED Hand Perfector
Model	HS-70
Power source	Adapter: Input: 100-240Vac/50-60Hz Output: 5.0V $\bar{=}$ 1.0A
Weight	1050g $\pm$ 10g
Dimensions	403 x 275 x 82 mm (W x L x H)
Wavelengths	Red633nm+Near Infrared830nm
Energy Source	LEDs
Number of LEDs	70 Dual LEDs: 70 x 830nm, 70 x 633nm
Power Density	30mw/cm <sup>2</sup>
Treatment time	10 minutes, For best results use daily.
Location for Use	Hands
Environment of Use	OTC
Safety and EMC	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-11, IEC 60601-2-57
Biocompatibility	ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10
Operating Environment	Temperature: -10~35 C Humidity: 30-80%RH
Storage Environment	Temperature: -20~60 C Humidity: 30-90%RH

## THE SYMBOLS AND DESCRIPTION

No.	Symbols	Description
1		Manufacturer.
2		"WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)" This means that the product including its battery must not be disposed of in household waste.
3		Consult instructions for use.



## THE SYMBOLS AND DESCRIPTION

No.	Symbols	Description
4		The date of manufacture.
5	IP22	Protection against ingress of solids, it means the volume of the solids should less than 12mm. Protection against ingress of water, it means the device could protected against vertical falling water drop 15°.
6		Type BF Applied Part.
7		This symbol means: Conforms to certain EC Directives on health, safety, and environmental protection standards. CE stands for 'Conformité Européenne'.
8		This symbols implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed.
9		Batch code.
10		Symbol for "SERIAL NUMBER". This symbol shall be accompanied by the manufacturer's serial number.
11		Temperature limit.
12		Humidity limit.
13		This symbol means keep dry.
14		This symbol means keep the device away from direct sunlight.

## SAFETY AND EMC

1) It complies with Medical Electrical Safety Standards (IEC 60601-1, IEC 60601-1-11, IEC 60601-2-57).


2) This device also complies with Medical EMC Standard (IEC 60601-1-2).

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions		
LED Hand Perfector is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of LED Hand Perfector should assure that it is used in such an environment.		
Emissions	Compliance	Electromagnetic environment-- guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	LED Hand Perfector uses LED energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable	LED Hand Perfector is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	$P_{st} \leq 1.0$ ; $P_{It} < 0.65$ ; $d(t) \text{ sec} \leq 0.5$ ; $d_{max} \leq 4\% \text{ dc} \leq 3.3\%$	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
LED Hand Perfector is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of LED Hand Perfector should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment --guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	$\pm 8 \text{ kV}$ contact $\pm 2 \text{ kV}, \pm 4 \text{ kV},$ $\pm 8 \text{ kV}, \pm 15 \text{ kV}$ air	$\pm 8 \text{ kV}$ contact $\pm 2 \text{ kV}, \pm 4 \text{ kV},$ $\pm 8 \text{ kV}, \pm 15 \text{ kV}$ air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	$\pm 2 \text{ kV}$ 100 kHz repetition frequency	$\pm 2 \text{ kV}$ 100 kHz repetition frequency	Mains power quality should be that of a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT
Surge IEC 61000-4-5	$\pm 0,5 \text{ kV}, \pm 1 \text{ kV}$ Line-to-line	$\pm 0,5 \text{ kV}, \pm 1 \text{ kV}$ Line-to-line	Mains power quality should be that of a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT

Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cycle (At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°)  0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles (Single phase: at 0°)  0 % UT; 250/300 cycle	0 % UT; 0,5 cycle (At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°)  0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles (Single phase: at 0°)  0 % UT; 250/300 cycle	Mains power quality should be a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT. If the user of LED Hand Perfector requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that LED Hand Perfector be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT
NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
LED Hand Perfector is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of LED Hand Perfector should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment –guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 0,15 MHz and 80 MHz  6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	3 Vrms 0,15 MHz and 80 MHz  6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of LED Hand Perfector , including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance  $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.7 GHz  Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation Distance in meters (m).

Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz to 2.7GHz 80 % AM at 1 kHz	Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range. b Interference may occur in the vicinity of Equipment marked with the following symbol:  
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			
a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which LED Hand Perfector is used exceeds the applicable RF compliance level above, LED Hand Perfector should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating LED Hand Perfector . b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 10 V/m.			

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the LED Hand Perfector			
LED Hand Perfector is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are control RGB. The customer or the user of LED Hand Perfector can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and LED Hand Perfector as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

## MANUFACTURER INFORMATION



CurrentBody.com Ltd  
D6 Stanley Green Business Park Commercial Avenue,  
Cheadle Hulme SK8 6QH  
CurrentBody BV, Naritaweg 2, 1437EL Rozenburg,  
Netherlands

**Made in China**

## CONTENU

1. CurrentBody Skin™ LED Hand Perfector
2. Câble de chargement
3. Housse de rangement

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. N'utilisez pas l'appareil près d'une source où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
2. N'utilisez pas et ne rechargez pas l'appareil avec un adaptateur secteur endommagé ou défectueux. Ne pliez pas et n'abîmez pas le cordon de chargement.
3. N'essayez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. Cette action annulerait la garantie.
4. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux.

## AVERTISSEMENT

1. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur des adultes de plus de 18 ans et n'est pas recommandé pour une utilisation sur des nourrissons ou des enfants.
2. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez consulter votre médecin si vous êtes ou pensez être enceinte.
3. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous avez ou pensez avoir un cancer.
4. N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé. Si l'appareil est tombé dans l'eau, vous devez d'abord le débrancher avant de le toucher.
5. Ne regardez pas directement dans le faisceau de lumière car cette action pourrait causer un inconfort temporaire. Assurez-vous de placer l'appareil correctement sur le visage afin que vous puissiez voir à travers les fentes pour les yeux et de sorte que l'appareil ne couvre pas les yeux.
6. Ne pas utiliser si votre peau est rouge ou enflée suite à un traitement précédent.
7. N'utilisez pas l'appareil pour traiter une peau douloureuse au toucher, surélevée (plus épaisse que la peau environnante), présentant des croûtes ou des blessures ouvertes. Ceci pourrait être le signe d'un état plus grave et votre peau doit être examinée par votre médecin.
8. Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
9. N'utilisez pas l'appareil si le dessus n'est pas fixé à la base.

## MISES EN GARDE

1. Veuillez cesser d'utiliser l'appareil s'il surchauffe ou s'il devient trop chaud pour vous.
2. Débranchez toujours l'appareil après usage.
3. Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un endroit présentant des températures supérieures à 100 degrés Fahrenheit car ceci pourrait endommager le revêtement en plastique.
4. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil ou l'alimentation.
5. Ne laissez pas tomber l'appareil sur des surfaces dures, car ceci pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil endommagé peut entraîner des blessures sur la peau et sur les yeux.
6. Si vous avez des inquiétudes concernant la peau que vous traitez, vous devez cesser toute utilisation et consulter votre médecin.
7. Veuillez contacter votre médecin si vous avez des questions d'ordre médical concernant l'utilisation de cet appareil.

## CONTRE-INDICATIONS

Veuillez consulter votre médecin avant l'utilisation si :

1. Vous prenez des médicaments sur ordonnance ou en vente libre qui provoquent une sensibilité à la lumière. Vous pouvez trouver des informations et une liste de médicaments pouvant provoquer une sensibilité à la lumière sur : <https://www.current-body.com/pages/led-contre-indications>
2. Vous avez des lésions suspectes ou cancéreuses.
3. Vous avez des troubles photosensibles ou une maladie génétique des yeux.

## **Veillez effectuer un test de sensibilité à la lumière avant d'utiliser l'appareil**

1. Allumez votre appareil.
2. Placez l'appareil sur votre bras et effectuez un traitement complet de 10 minutes.
3. Une fois le traitement terminé, vérifiez la zone traitée. Si la zone est devenue rouge et que cette rougeur dure plus de 2 heures, ceci indique que votre peau est sensible à la lumière. Renvoyez l'appareil à CurrentBody sous 14 jours pour un remboursement complet.

## **MODE D'EMPLOI**

### **MISE EN MARCHÉ :**

1. Déballez votre CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector.
2. Sélectionnez la fiche appropriée pour votre territoire et branchez-la dans une prise de courant.

### **Mode d'emploi:**

1. Vous devez effectuer un test de sensibilité avant toute utilisation.
2. Lavez et séchez complètement vos mains avant de les utiliser.
3. Mettez l'appareil en marche et placez vos mains dans l'appareil.
4. CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector est doté d'une fonction d'arrêt automatique après la fin d'un traitement de 10 minutes.
5. Retirez vos mains de l'appareil et essuyez-le (voir les instructions de nettoyage).
6. Placez l'appareil dans le sac de protection.

## **Conseils pour obtenir de meilleurs résultats :**

1. Utilisez quotidiennement.
2. Utilisez l'appareil uniquement sur une peau propre et sèche.
3. N'utilisez pas l'appareil après l'application de crèmes contenant du SPF car ceci pourrait bloquer la pénétration de la lumière.
4. Essayez l'appareil après chaque utilisation.
5. Immédiatement après le traitement, appliquez un sérum ou la crème hydratante de votre choix.

## **Maintenance :**

1. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable. Les utilisateurs ne doivent pas essayer de réparer l'appareil, car cela l'endommagerait et annulerait la garantie.
2. L'appareil ne comprend qu'un bouton ON/OFF. Tous les paramètres sont réglés sur le réglage d'usine.

## **Nettoyage :**

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de toute source d'alimentation.
2. Retirez le haut de l'appareil de la base (il est fixé par des aimants). Après chaque utilisation, essuyez le dessus des DEL avec des lingettes alcoolisées ou un chiffon humide pour éliminer tout résidu d'huile de peau.
3. Nettoyez le corps de l'appareil en utilisant un chiffon humide ou en microfibre.
4. Fixez à nouveau la partie supérieure à la base. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

## WAS IN DER BOX IST

1. CurrentBody Skin™ LED Hand Perfector
2. Ladekabel
3. Aufbewahrungstasche

## WICHTIGE

### SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
2. Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten Netzteil. Biegen Sie das Ladekabel nicht unsanft oder missbräuchlich.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Das Gerät kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Dadurch wird die Garantie ungültig.
4. Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie glauben, dass es defekt ist.

## WARNUNGEN

1. Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Erwachsenen über 18 Jahren vorgesehen und wird nicht für die Verwendung bei Säuglingen oder Kindern empfohlen.
2. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.
3. Bitte konsultieren Sie vor der Einnahme Ihres Arzt, wenn Sie an Krebs erkrankt sind oder den Verdacht haben, dass Sie an Krebs erkrankt sind.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, müssen Sie es zuerst ausstecken, bevor Sie es berühren.
5. Schauen Sie nicht direkt in das Licht, da dies zu vorübergehendem Unbehagen führen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät so auf dem Gesicht platzieren, dass Sie durch die Augenöffnungen sehen können und dass das Gerät die Augen nicht verdeckt.
6. Verwenden Sie es nicht, wenn Ihre Haut von einer früheren Behandlung gerötet oder geschwollen ist.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Haut, die sich schmerzhaft anfühlt, erhaben ist (höher als die umgebende Haut), verkrustet oder blutet. Dies kann ein Anzeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von Ihrem Arzt untersucht werden.
8. Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig.
9. Nicht verwenden Sie das Gerät, wenn das Oberteil nicht am Sockel befestigt ist.

## VORSICHTEN

1. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gerät überhitzt oder unangenehm heiß wird.
2. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker.
3. Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort mit Temperaturen über 100 Grad Celsius, da dies zu Schäden an der Kunststoffbeschichtung führen kann.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Netzgerät zu öffnen oder zu reparieren.
5. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen, da es dadurch beschädigt werden könnte. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Haut- oder Augenverletzungen führen.
6. Wenn Sie Bedenken bezüglich der zu behandelnden Haut haben, sollten Sie die Anwendung abbrechen und Ihren Arzt aufsuchen.
7. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

## KONTRAIKATIONEN

Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie:

1. Sie verschreibungspflichtige oder rezeptfreie Arzneimittel einnehmen, die bekanntermaßen Lichtempfindlichkeit verursachen. Weitere Informationen und eine Liste von Medikamenten, die Lichtempfindlichkeit verursachen können, finden Sie unter: <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
2. Sie haben verdächtige oder krebsartige Läsionen.
3. Sie leiden an lichtempfindlichen Störungen oder genetischen Erkrankungen des Auges.

## Testen Sie sich selbst auf Lichtempfindlichkeit, bevor Sie das Gerät einschalten

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
2. Legen Sie das Gerät auf Ihren Arm und führen Sie eine vollständige 10-minütige Behandlung durch.
3. Nach Abschluss der Behandlung sollten Sie die Stelle visuell überprüfen. Wenn der Bereich rot geworden ist und länger als 2 Stunden anhält, ist Ihre Haut lichtempfindlich. Senden Sie das Gerät innerhalb von 14 Tagen an CurrentBody zurück und Sie erhalten eine volle Rückerstattung.

## ANWENDUNGSWEISE

### Einrichten:

1. Packen Sie Ihren CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector.
2. Wählen Sie den für Ihr Gebiet geeigneten Stecker und stecken Sie ihn in eine Steckdose.

### Anweisungen für verwenden

1. Sie müssen vor der Verwendung einen Empfindlichkeitstest durchführen.
2. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung vollständig ab.
3. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie Ihre Hände in das Gerät.
4. CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach Abschluss einer 10-minütigen Behandlung.
5. Nehmen Sie Ihre Hände vom Gerät und wischen Sie das Gerät sauber (siehe Reinigungsanleitung).
6. Legen Sie das Gerät in die Schutztasche.

## Hilfreiche Tipps Für beste Ergebnisse:

1. Täglich verwenden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur auf sauberer, trockener Haut.
3. verwenden Sie das Gerät nicht nach dem Auftragen von Cremes, die einen Lichtschutzfaktor enthalten, da dies das Eindringen von Licht blockieren könnte.
4. Wischen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch ab.
5. Unmittelbar nach der Behandlung tragen Sie ein Serum oder eine Feuchtigkeitscreme Ihrer Wahl auf.

## Wartung:

1. Dieses Gerät hat keine zu wartenden Teile. Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät zu reparieren, da es dadurch beschädigt wird und die Garantie erlischt.
2. Das Gerät verfügt nur über eine ON/OFF-Taste. Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellung gesetzt.

## Reinigen:

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von jeder Stromquelle.
2. Nehmen Sie den oberen Teil des Geräts vom Sockel ab (er ist mit Magneten befestigt). Wischen Sie die Oberseiten der LEDs nach jedem Gebrauch mit Alkoholtüchern oder einem feuchten Tuch ab, um Rückstände von Hautfett zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch oder einem Mikrofasertuch.
4. Bringen Sie das Oberteil wieder an der Basis an. Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig trocknen.

## COSA C'È NELLA SCATOLA

1. CurrentBody Skin™ LED Hand Perfector
2. Cavo di trascinamento
3. Borsa per la conservazione

## INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. Non utilizzare il dispositivo dove potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
2. Non utilizzare o caricare il dispositivo con un adattatore di corrente danneggiato e difettoso. Non piegare bruscamente o maltrattare il cavo di ricarica.
3. Non tentare di smontare il dispositivo. Il dispositivo non può essere riparato dall'utente. Questo annullerà la garanzia.
4. Smettete immediatamente di usare il dispositivo se pensate che sia difettoso.



## AVVERTENZE

1. Questo dispositivo è progettato per l'uso su adulti di età superiore ai 18 anni e non è raccomandato per l'uso su neonati o bambini.
2. Si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso se si è, o si sospetta di essere, incinta.
3. Si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso se si ha, o si sospetta di avere, il cancro.
4. Non utilizzare il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è caduto in acqua, è necessario scollegarlo prima di toccarlo.
5. Non guardare direttamente nelle luci perché questo potrebbe causare un disagio temporaneo.
6. Non usare se la tua pelle è rossa o gonfia a causa di un trattamento precedente.
7. Non utilizzare il dispositivo per trattare la pelle che è dolorosa al tatto, sollevata (più alta della pelle circostante), con croste o sanguinante. Questo può essere un segno di una condizione più seria e dovrebbe essere controllato dal medico.
8. Non è consentita alcuna modifica di questa attrezzatura.
9. Non utilizzare il dispositivo se la parte superiore non è fissata alla base.

## ATTENZIONE

1. Interrompere l'uso se il dispositivo si surriscalda o diventa scomodamente caldo.
2. Sempre scollegare il dispositivo dopo l'uso.
3. Non conservare il dispositivo alla luce diretta del sole o in un luogo con temperature superiori a 100 Fahrenheit, poiché ciò potrebbe causare danni al rivestimento in plastica.
4. Non tentare di aprire o riparare il dispositivo o l'alimentatore.
5. Non far cadere il dispositivo su superfici dure, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. L'uso di un dispositivo danneggiato potrebbe provocare lesioni alla pelle o agli occhi.
6. Se avete qualche preoccupazione per la pelle che state trattando, dovrete cessare l'uso e controllare con il vostro medico.
7. Contatti il suo medico se ha qualsiasi domanda medica relativa all'uso di questo dispositivo.

## CONTROINDICAZIONI

Chiedete al vostro medico prima di usare se voi:

1. Sta assumendo farmaci da prescrizione o da banco noti per causare sensibilità alla luce. Puoi trovare maggiori informazioni e una lista di farmaci che possono causare sensibilità alla luce su: <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
2. Hanno lesioni sospette o cancerose.
3. Avere disturbi fotosensibili o condizioni genetiche dell'occhio.

## Testate la vostra sensibilità alla luce prima dell'uso

1. Accendere il dispositivo.
2. Posizionare il dispositivo sul braccio e condurre un trattamento completo di 10 minuti.
3. Al termine del trattamento, controlla visivamente l'area. Se l'area è diventata rossa e dura più di 2 ore, la tua pelle è sensibile alla luce. Restituire il dispositivo a CurrentBody entro 14 giorni per un rimborso completo.

## COME USARE

### Preparare:

1. Disimballare il CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector.
2. Selezionare la spina appropriata per il proprio territorio e inserirla in una presa di corrente.

### Istruzioni per l'uso:

1. È necessario eseguire un test di sensibilità prima dell'uso.
2. Lavare e asciugare completamente le mani prima dell'uso.
3. Accendere il dispositivo e inserire le mani nel dispositivo.
4. CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector è dotato di una funzione di spegnimento automatico al termine di un trattamento di 10 minuti.
5. Togliere le mani dal dispositivo e pulirlo (vedere le istruzioni per la pulizia).
6. Riporre il dispositivo nel sacchetto di protezione.

## Consigli utili Per i migliori risultati:

1. Usare quotidianamente.
2. Utilizzare il dispositivo solo su pelle pulita e asciutta.
3. Non utilizzare il dispositivo dopo l'applicazione di creme che contengono SPF, perché questo potrebbe bloccare la penetrazione della luce.
4. Pulire il dispositivo dopo ogni uso.
5. Subito dopo il trattamento, applicare un siero o una crema idratante di vostra scelta.

### Manutenzione:

1. Questo dispositivo non ha parti riparabili. L'utente non deve tentare di riparare il dispositivo per non danneggiarlo e invalidare la garanzia.
2. Il dispositivo include solo un pulsante ON/OFF. Tutte le impostazioni sono quelle di fabbrica.

### Pulizia:

1. Spegnerne il dispositivo e scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione.
2. Rimuovere la parte superiore del dispositivo dalla base (è fissata con dei magneti). Dopo ogni utilizzo, pulire la parte superiore dei LED con una salviettina di alcool o un panno umido per rimuovere eventuali residui di olii della pelle.
3. Pulire il corpo del dispositivo con un panno umido o in microfibra.
4. Ricollegare la parte superiore alla base. Lasciare asciugare completamente il dispositivo prima dell'uso.

## QUÉ HAY EN LA CAJA

1. CurrentBody Skin™ Hand Perfector
2. Cable carga
3. Bolsa almacenamiento

## IMPORTANTE SEGURIDAD INFORMACIÓN

1. No utilice el aparato donde pueda entrar en contacto con el agua.
2. No utilice el dispositivo con un adaptador de corriente que esté dañado o defectuoso. No doble ni maltrate el cable de carga.
3. No intente desmontar el aparato. El dispositivo no puede ser reparado por el usuario. Esto anulará la garantía.
4. Deje de utilizar el aparato inmediatamente si cree que está defectuoso.

## ADVERTENCIAS

1. Este dispositivo está diseñado para su uso en adultos mayores de 18 años y no se recomienda su uso en bebés o niños.
2. Consulte a su médico antes de utilizarlo si está o sospecha que está embarazada.
3. Consulte a su médico antes de utilizarlo si tiene o sospecha que tiene cáncer.
4. No utilice el aparato si se ha caído al agua.
5. No utilice el aparato si está mojado.
6. No mire directamente a las luces, ya que puede causar molestias temporales.
7. No utilizar si la piel está enrojecida o inflamada por un tratamiento anterior.
8. No utilice el dispositivo para tratar la piel que duela al tacto, esté elevada (más alta que la piel circundante), tenga costras o sangre. Esto puede ser un signo de una condición más seria y debe ser revisado por su médico.
9. No se permite ninguna modificación de este equipo.
10. No utilice el aparato si la parte superior no está fijada a la base.

## PRECAUCIONES

1. Interrumpa el uso si el dispositivo se sobrecalienta o se vuelve incómodo.
2. Desenchufa siempre el aparato después de usarlo.
3. No almacene el dispositivo bajo la luz directa del sol o en un lugar con temperaturas superiores a 100 Fahrenheit, ya que esto puede causar daños en el revestimiento de plástico.
4. No intente abrir o reparar el aparato o el enchufe.
5. No deje caer el dispositivo sobre superficies duras, ya que podría dañarlo. El uso de un dispositivo dañado podría provocar lesiones en la piel.
6. Si tiene alguna duda sobre la piel que está tratando, debe dejar de usarlo y consultar con su médico.
7. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna duda médica sobre el uso de este dispositivo.

## CONTRAINDICACIONES

### Pregunte a su médico antes de usarlo si:

1. Está tomando medicamentos de prescripción o de venta libre que se sabe que causan sensibilidad a la luz. Puede encontrar más información y una lista de medicamentos que pueden causar sensibilidad a la luz en: <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
2. Tener alguna lesión sospechosa o cancerosa.
3. Tener algún trastorno de fotosensibilidad o alguna condición genética del ojo.

## Compruebe la sensibilidad a la luz antes de utilizarlo:

1. Encienda su dispositivo.
2. Realice un tratamiento completo de 10 minutos.
3. Una vez finalizado el tratamiento, compruebe visualmente la zona. Si la zona se ha vuelto roja y dura más de 2 horas, su piel tiene sensibilidad a la luz. Devuelva el dispositivo a CurrentBody en un plazo de 14 días para obtener un reembolso completo.

## CÓMO USARLO

### Preparado:

1. Desembale su CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector.
2. Seleccione el enchufe adecuado para su territorio y conéctelo a una toma de corriente.

### Instrucciones de uso:

1. Debe realizar una prueba de sensibilidad antes de su uso.
2. Lávese y séquese completamente las manos antes de utilizarlo.
3. Encienda el aparato y coloque las manos en él.
4. CURRENTBODY Skin™ LED Hand Perfector™ cuenta con una función de apagado automático tras completar un tratamiento de 10 minutos.
5. Retire las manos del aparato y limpie el aparato (consulte las instrucciones de limpieza).
6. Coloque el aparato en la bolsa de protección.

## Consejos útiles Para obtener los mejores resultados:

1. Úsalo a diario.
2. Utilice el dispositivo sólo sobre la piel limpia y seca.
3. No utilice el dispositivo después de la aplicación de cremas que contengan FPS, ya que podría bloquear la penetración de la luz.
4. Limpiar el aparato después de cada uso (ver instrucciones de limpieza).
5. Inmediatamente después del tratamiento, aplique un sérum o una crema hidratante de su elección.

## Mantenimiento:

1. Este aparato no tiene piezas reparables. Los usuarios no deben intentar reparar el dispositivo, ya que esto lo dañará y anulará la garantía.
2. El aparato sólo incluye un botón de ON/OFF.
3. Todos los ajustes están configurados en la configuración de fábrica.

## Limpieza:

1. Apague el dispositivo y desenchúfelo de cualquier fuente de alimentación.
2. Retire la parte superior del dispositivo de la base (está asegurada con imanes).
3. Limpie la parte superior de los LEDs con toallitas de alcohol o un paño húmedo para eliminar cualquier residuo de aceites de la piel después de cada uso.
4. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo o de microfibra.
5. Vuelva a colocar la parte superior en la base. Deje que el dispositivo se seque completamente antes de utilizarlo.

## お届け内容

1. CurrentBody Skin™ LED ライトセラピーマスク
2. 充電ケーブル
3. 収納バッグ

## 安全性に関する重要なお知らせ

1. 水回りでのご利用はしないでください。
2. 壊れた電源アダプタを充電に使用しないでください。USB充電コードを激しく折り曲げたりしないでください。
3. 機器を分解しないでください。ご自身のLEDライトセラピーマスク及び付属機器の修理などはしないでください。分解や修理を試みた機器の保障は保障期間内であってもお受けする事はできなくなります。
4. 故障している可能性がある機器や付属品は使用しないでください。

## 警告

1. こちらの機器は乳幼児や子供を含めた18歳以下の方のご利用をおすすめしていません。
2. 妊娠している方や妊娠の可能性のある方のご利用に関してはかかりつけのお医者様に相談してください。
3. 癌を患われている方、癌を患っている可能性がある方のご利用に関してはかかりつけのお医者様に相談してください。
4. 機器が濡れている状態で利用しないでください。機器が水没した場合は機器に触れる前にプラグを必ず抜いてください。
5. 一時的な不快感を感じる可能性があるためライトを直視しないでください。マスクを顔に装着して目の位置が専用の穴の下になるように設置してから電源を入れてください。
6. 機器の利用によって肌に炎症がおこったり腫れたりした場合は使用を中止してください。
7. 痛みや腫れを感じたり、かさぶたや流血のある肌には利用しないでください。このような症状がある方はかかりつけのお医者様に相談してください。
8. マスクや付属の機器を変形させないでください。

## 注意事項

1. 機器が発熱したり利用時に違和感を感じる熱さになった場合は利用を中止してください。
2. 充電が完了した後はプラグをコンセントから抜くようにしてください。
3. 機器を直射日光のあたる場所や気温が37度以上の場所に保管しないでください。故障の原因となります。
4. 付属の電源ケーブルをお使いください。付属のもの以外の電源ケーブルのご利用は故障の原因となります。
5. 機器や電源部位を分解したり修理しようとししないでください。
6. 機器を固い場所に落下させないでください。故障の原因になります。故障した機器のご利用は皮膚や目の損傷の原因になる可能性があります。
7. 肌に異常を感じる場合は機器の利用を中止し、かかりつけのお医者様にご相談ください。
8. 機器の利用に関連する医療的なご質問がある場合はかかりつけのお医者様にご相談ください。

## 禁忌事項

下記の場合はご利用前にお医者様にご相談ください。

1. 光線過敏症の原因となる可能性のある処方箋薬や市販薬を利用している場合。光線過敏症に影響する可能性のある薬に関しては下記のサイトでご確認頂けます：<https://www.current-body.com/pages/led-contraindications>
2. 癌性病変や癌性病変の疑いがある場合。
3. 目に感光性障害の症状や遺伝子疾患がある場合。

機器をご利用になる前に光線過敏症の検査を行ってください。

1. 機器を起動してください
2. 機器を腕に装着し10分間のトリートメントを行ってください。
3. 10分間のトリートメントの後、肌の状態を目視で確認してください。肌が赤くなり2時間以上赤みが収まらない場合、お客様の肌は光線過敏症と考えられます。14日以内にカレントボディに返却して頂くことで全額返金保障の対象となります。

## ご利用方法

設定：

1. CURRENTBODY Skin™ LED ハンドパーフェクター を開梱します。
2. お住まいの地域に適したプラグを選択し、電源コンセントにさします。

## ご使用方法：

1. 使用前に感度テストを実施する必要があります。
2. 使用前に手を洗って完全に乾かしてください。
3. デバイスの電源を入れ、デバイスに手を入れます。
4. CURRENTBODY Skin™ LED ハンドパーフェクター は、10分経過後、自動で停止します。
5. デバイスから手を離し、デバイスをきれいに拭きます（クリーニング手順を参照してください）。
6. デバイスを収納バッグに入れます。

## おすすめのご利用方法:

1. 毎日のご利用をお勧めしています。
2. 清潔で乾燥した肌にお使いください。
3. SPF含有クリームを塗布した肌へのご利用は避けてください。ライトの肌への浸透を妨げる原因になります。
4. ご利用のたびにマスクを拭いて清潔に保ってください。
5. 機器のご利用後は速やかにセラムや化粧水をお肌に塗布してください。

## メンテナンス:

1. この装置には修理可能な部品はありませんので、ユーザーは事故処理を試みないでください。これはデバイスに損傷を与え、保証が無効になるためです。
2. デバイスにはオン/オフ ボタンのみが含まれます。すべての設定が工場出荷時の設定となっています。

## クリーニング:

1. デバイスの電源を切り、電源からプラグを抜きます。
2. デバイスの上部をベースから取り外します (磁石で固定されています)。LED の上部をアルコール ワイブまたは湿らせた布で拭いて使用後の皮脂の残留物を取り除きます。
3. 湿らせた布またはマイクロファイバー布を使用して、デバイス本体を清掃します。
4. トップをベースに再度取り付けます。使用前にデバイスを完全に乾かしてください。

## 每盒内有:

1. CurrentBody Skin™ LED光疗护手仪
2. 说明书
3. 适配器
4. 收纳袋

## 重要安全信息

1. 请勿在有机会沾水的地方使用设备。
2. 切勿使用损坏或故障的电源适配器使用该设备。请勿粗暴扳弯或滥用USB充电线。
3. 请勿试图拆开设备，自行修理设备将使保修失效。
4. 如设备出现故障或存在缺陷，请立刻停止使用。

## 警告

1. 设备仅供年满18岁的成人使用，不建议用于婴儿或儿童。
2. 孕妇 (或出现怀孕征兆者) 在使用前应先咨询医生意见。
3. 癌症病患 (或怀疑患者) 在使用前应先咨询医生意见。
4. 请勿使用被水沾湿的设备。如设备掉入水中，先断开电源才好触碰。
5. 如皮肤因先前的疗程而发红或肿胀，请勿使用护手仪。
6. 请勿把护手仪用于触痛、凸起、结痂或出血的皮肤上。这些可能是更严重病情的症状，应由医生进行详细检查。
7. 严禁改装设备。



## 注意事项

1. 如设备过热或温度过高，请立刻停止使用。
2. 使用完成后，请把设备从插座拔下。
3. 请勿把设备存放在阳光直射或温度超过100华氏度的地方，以免损坏塑料涂层。
4. 仅使用随附的通用USB电源线，否则有可能损坏设备。
5. 请勿尝试打开或修理设备或其电源组件。
6. 切勿把设备掉落在坚硬的表面上，以免对机件造成损坏。使用损坏的设备可能会导致皮肤或双眼受损。
7. 用设备治疗皮肤时如有疑问，应马上停止使用并咨询医生意见。
8. 任何有关设备使用的医疗问题，请联系您的家庭医生。

## 使用禁忌

**如出现以下情况，使用设备前请先咨询医生意见：**

1. 正在服用已知会导致光敏感的处方药或非处方药。更多有关可能会导致光敏感的药物详情，请访问以下网页：<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
2. 出现可疑或癌性病变。
3. 患有光敏性疾病或其他与眼睛有关的遗传疾病。

**在手上使用前，先测试自己皮肤对光线的敏感度：**

1. 开启设备电源。
2. 把设备置于手臂上，进行10分钟的疗程。
3. 完成后目测皮肤状况。如皮肤变红且持续超过两小时，表示您的皮肤对光过敏。请在14天内将设备退回CurrentBody，我们会给您全额退款。

## 如何使用

**连接方法：**

1. 从包装取出 CURRENTBODY Skin™ LED光疗护手仪。
2. 根据您的地区和国家选择合适的插头并插入电源插座。

**使用指引：**

1. 使用设备前必须进行敏感性测试。
2. 取下设备，将设备擦拭干净。
3. 把设备放回具保护性的收纳袋中。

**以下建议有助您实现最佳效果：**

1. 每天使用。
2. 仅在洁净、已擦干的皮肤上使用设备。
3. 涂抹含有SPF防晒成分的护手霜后请勿使用设备，否则护手霜可能会阻碍光线穿透。
4. 每次使用后把设备擦拭干净。
5. 完成疗程后立即涂上精华素或保湿霜。

**每盒内有：**

1. CurrentBody Skin™ LED光療護手儀
2. 說明書
3. 適配器
4. 收納袋

**重要安全資訊**

1. 請勿在有機會沾水的地方使用設備。
2. 切勿使用損壞或故障的電源適配器使用該設備。請勿粗暴扳彎或濫用充電線。
3. 請勿試圖拆開設備，自行修理設備將使保修失效。
4. 如設備出現故障或存在缺陷，請立刻停止使用。

## 警告

1. 設備僅供年滿18歲的成人使用，不建議用於嬰兒或兒童。
2. 孕婦（或出現懷孕徵兆者）在使用前應先諮詢醫生意見。
3. 癌症病患（或懷疑患癌者）在使用前應先諮詢醫生意見。
4. 請勿使用被水沾濕的設備。如設備掉入水中，先斷開電源才好觸碰。
5. 如皮膚因先前的療程而發紅或腫脹，請勿使用護手儀。
6. 請勿把護手儀用於觸痛、凸起、結痂或出血的皮膚上，這些可能是更嚴重病情的症狀，應由醫生進行詳細檢查。
7. 嚴禁改裝設備。

## 注意事項

1. 如設備過熱或溫度過高，請立刻停止使用。
2. 請勿把設備存放在陽光直射或溫度超過100華氏度的地方，以免損壞塑膠塗層。
3. 僅使用隨附的通用USB電源線，否則有機會損壞設備。
4. 請勿嘗試打開或修理設備或其電源組件。
5. 切勿把設備掉落在堅硬的表面上，以免對機件造成損壞。使用損壞的設備可能會導致皮膚或雙眼受損。
6. 用設備治療皮膚時如有疑慮，應馬上停止使用並諮詢醫生意見。
7. 任何有關設備使用的醫療問題，請聯繫您的家庭醫生。

## 使用禁忌

**如出現以下情況，使用設備前請先諮詢醫生意見：**

1. 正在服用已知會導致光敏感的處方藥或非處方藥。更多有關可能會導致光敏感的藥物詳情，請訪問以下網頁：<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>
2. 出現可疑或癌性病變。
3. 患有光敏性疾病或其他與眼睛有關的遺傳疾病。

**在手上使用前，先測試自己皮膚對光線的敏感度：**

1. 開啟設備電源。
2. 把設備置於手臂上，進行10分鐘的療程。
3. 完成後目測皮膚狀況。如皮膚變紅且持續超過兩小時，表示您的皮膚對光過敏。請在14天內將設備退回CurrentBody，我們會給您全額退款。

## 如何使用

**連接方法：**

1. 從包裝取出 CURRENTBODY Skin™ LED光療護手儀。
2. 根據您的地區和國家選擇合適的插頭並插入電源插座。

### 使用指引：

1. 使用設備前必須進行敏感性測試。
2. 使用前先把手洗淨並徹底擦幹。您可以同時使用精華素或推薦的護手霜來增強療效。
3. 開啟設備電源。CURRENTBODY Skin™ LED光療護手儀在完成10分鐘的療程後將自動關機。
4. 取下設備，將設備擦拭乾淨。
5. 把設備放回具保護性的收納袋中。

### 以下建議有助您實現最佳效果：

1. 每天使用。
2. 僅在潔淨、已擦幹的皮膚上使用設備。
3. 每次使用後把設備擦拭乾淨。
4. 完成療程後立即塗上精華素或保濕霜。

## 상자 내용물

1. CurrentBody Skin™ LED Hand Perfector
2. 충전 케이블
3. 보관 가방

## 중요한 안전 정보

1. 장치를 물 가까이에서 사용하지 .
2. 손상되어 있거나 결함이 있는 전원 어댑터를 사용하여 장치를 사용하거나 충전하지 마십시오. USB 충전 코드를 심하게 구부리거나 남용하지 마십시오.
3. 장치를 분해하지 마십시오. 사용자가 장치를 수리 할 수 없습니다. 이 것은 장치의 보증을 무효화합니다.
4. 장치에 결함이 있다고 생각된다면 즉시 사용을 중지하십시오.

## 경고

1. 이 장치는 18세 이상의 성인이 사용하기에 적합합니다. 이 제품의 그의 나이 아래 사람에 대 한 권장 하지 않습니다 18 자녀 또는.
2. 만약 당신이 임신을 했다면(혹은 계획하고 있다면), 사전에 의사와 상담하시기 바랍니다 사용하기 전에.
3. 당신이 암에 걸렸다면 또는 의심,사전에 의사와 상담하시기 바랍니다 사용하기 전에.
4. 기기가 젖어 있는 경우 사용하지 마십시오. 기기가 물에 빠졌을 경우 먼저 기기의 플러그를 뽑았다가 만져야 합니다.
5. 일시적 불편함이 생길 수 있으므로 조명을 직접적으로 쳐다보지 마십시오. 눈구멍을 통해 볼 수 있으므로 장치가 눈을 가리지 않게 얼굴을 놓으십시오.

6. 이전 치료로 인해 피부가 매우 붉어지거나 부어오른 경우 얼굴에 장치를 사용하지 마십시오.
7. 만졌을 때 통증이 있거나, 주변 피부보다 높게 돌았거나, 딱지 또는 출혈이 있는 부위에는 장치를 사용하지마십시오. 이것은 더욱 심각한 상태가 될 수 있으며 의사의 진찰을 받아야 합니다.
8. 이 장비를 개조하는 것은 금지되어 있습니다.

## 주의

1. 장치가 과열되거나 너무 뜨거울 경우 사용하지 마십시오.C
2. 직사광선이나 화씨 100도가 넘는 곳에 장치를 보관하지 마세요. 플라스틱 코팅에 손상을 야기할 수 있습니다.C
3. 제공된 "범용 USB 전원 코드"만 사용하십시오. 사용하지 마십시오. 가짜 및 잘못된 전원 코드. 그렇지 않으면 장치를 손상을 입힐 것입니다.
4. 장치 열거나 이 제품을 직접 수리하려고 장치마십시오.
5. 장치를 단단한 곳에 떨어뜨리지 마세요, 손상될 수 있습니다. 손상된 기기를 사용하면 피부나 눈에 부상을 입을 수 있습니다.
6. 당신의 피부 대하여 의문사항이 있으신 경우, 사용을 중지해야 합니다 그리고 의사 상담하십시오.
7. 이 장치에 대해 대한 질문이, 있으시면 담당 의사에게 전화해서 바랍니다.

## 금기 사항

사용하기 전에 다음과 같이 의사에게 문의하세요:

1. 빛 과민증을 유발하는 것으로 알려진 처방약 또는 비처방약을 복용하고 있는지 여부.
- 빛 과민증을 유발할 수 있는 약물 목록과 자세한 정보는 다음 웹사이트에서 찾을 수 있습니다: <https://www.current-body.com/pages/led-contraindications>
2. 암성 병변이나 어떤 의심스러운 질병을 가지고 있는지 여부.
3. 감광성 장애나 어떤 눈의 유전적 질환이 있는지 여부.

디바이스를 사용하기 전에 민감도 검사가 필요할 수 있습니다. 다음과 같이 단계별로 실시해 주세요:

1. 디바이스 전원을 켭니다.
  2. 10분동안 팔 안쪽에 디바이스를 올려주세요.
  3. 테스트를 마친 후 최대 6시간을 기다려주세요.
- 팔 안쪽의 피부가 붉어졌거나 가렵다면 디바이스 사용에 적합하지 않습니다.
- 그럴 경우에는 14일이내로 디바이스를 반송해 주세요. 환불을 도와 드리겠습니다.

## 사용 방법

세팅하기:

- 커런트바디 스킨 LED 핸드 퍼펙터를 박스에서 꺼내주세요.
- 알맞는 플러그를 꺼내주세요.

## 단계별 사용법

1. 디바이스 사용 전 민감성 테스트를 꼭 실시해주세요.
2. 사용 전 손을 깨끗히 씻고 건조 시켜주세요.
3. 디바이스 전원을 키고 관리할 손을 넣어주세요.
4. 본 기기는 10분 트리트먼트가 끝난 후 자동으로 종료됩니다.
5. 사용이 끝난 후에는 디바이스를 깨끗히 청소 후 보관하여주세요. (청소 방법은 가이드를 참고해주세요)
6. 보관 가방에 담아 보관해주세요.

## 이용하는 방법에 :

1. 처음 사용하기 전에 감도 테스트를 해야 합니다.
2. 첫째로 모두의, 당신의 얼굴을 정화하고 말리십시오. 그런 다음 세럼 또는 권장 하이드로겔 마스크를 적용하여 LED 치료의 효과를 높입니다.
3. 장치를 얼굴에 대고 올바른 위치에서 머리 주위에 꼭 맞도록 스트랩을 조정합니다.
4. 장치에 전원을 켜고. CURRENTBODY Skin™ LED 라이트 테라피 마스크는 10분 치료가 끝나면 자동으로 꺼지는 기능이 있습니다.
5. 얼굴에서 장치를 제거하고 청소하십시오.
6. 항상 보호 커버 백에 넣으십시오.
7. LED 조명이 너무 밝게 느껴지신다면, 이를 위해 보호안경이 포함되어 있습니다. 이 장치는 보호안경 없이도 안전하게 사용할 수 있습니다. - 눈 안전 표준에 따라 모든 테스트를 거쳤습니다.

## 최상의 결과를 위한 위한 유용한 팁 :

1. 매일 활용할
2. 깨끗하고 건조한 피부에만 장치를 사용하십시오.
3. SPF가 함유된 자외선 차단제를 사용한 후에는 얼굴에 기기를 바르지 마십시오. 이러한 유형의 크림은 빛의 침투를 차단할 수 있습니다.
4. 사용 후에는 기기를 청소하십시오 각 사용 후에.
5. 트리트먼트 직후에 원하는 세럼이나 모이스처라이저를 바르십시오.

## 제품 관리:

1. 본 디바이스는 수리 가능한 부품이 함께 동봉되어있지 않기 때문에 직접 수리하지 마세요.

본 디바이스를 고의적으로 손상 시킬 경우 보증이 무효화됩니다.

2. 본 디바이스는 ON/OFF 버튼으로 구성 되어있으며, 모든 세팅은 사용하기 최적화 되어 있어 따로 세팅하지 않아도 됩니다.

1. 디바이스 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주세요.
2. 자석으로 고정되어있는 디바이스 뒷부분을 떼어내주세요. LED 상단을 알코올이 함유된 천이나 물티슈로 피부 각질 및 잔류물을 닦아내어 주세요.
3. 젖은 천이나 극세사 천을 이용하여 디바이스 본체를 청소해주세요.
4. 청소가 끝난 뒤 떼어냈던 뒷부분을 다시 부착해주세요. 다음 트리트먼트로 사용하기 전에 디바이스가 건조한 상태인지 확인해주세요.

## Что находится в коробке

1. CurrentBody Skin™ Перфектор для рук
2. Мешочек для хранения
3. Блок питания и адаптеры для конкретных стран

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте устройство в местах, где оно может соприкасаться с водой.
2. Не используйте устройство с поврежденным или неисправным блоком питания. Не допускайте резких изгибов или неправильного обращения с зарядным шнуром.
3. Не пытайтесь разобрать устройство. Устройство не подлежит обслуживанию пользователем. Это приведет к аннулированию гарантии.
4. Немедленно прекратите использование устройства, если вы считаете, что оно неисправно.

## Клиентское обслуживание

Пожалуйста, свяжитесь с нами через сайт, если у вас возникли вопросы или вам нужна консультация.

## ВНИМАНИЕ

1. Данное устройство предназначено для использования взрослыми старше 18 лет и не рекомендуется для использования младенцами или детьми.
2. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением, если вы беременны или подозреваете, что беременны.
3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у вас есть или есть подозрение, что у вас рак.
4. Не используйте устройство, если оно упало в воду. Не используйте устройство, если оно мокрое.
5. Не смотрите прямо на лампы, так как это может вызвать временный дискомфорт.
6. Не используйте, если ваша кожа покраснела или опухла после предыдущей процедуры.
7. Не используйте устройство для лечения кожи, к которой больно прикасаться, которая приподнята (выше, чем окружающая кожа), покрыта коркой или кровоточит. Это может быть признаком более серьезного заболевания и должно быть проверено вашим врачом.
8. Модификация этого оборудования запрещена.
9. Не используйте устройство, если верхняя часть не закреплена на основании.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Прекратите использование, если устройство перегревается или становится некомфортно горячим.
2. Всегда отключайте устройство от сети после использования.
3. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с температурой выше 100 градусов по Фаренгейту, так как это может привести к повреждению пластикового покрытия.
4. Не пытайтесь вскрывать или ремонтировать устройство или штекер.
5. Не роняйте устройство на твердые поверхности, так как это может привести к его повреждению. Использование поврежденного устройства может привести к травме кожи.
6. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу кожи, которую вы обрабатываете, следует прекратить использование и проконсультироваться с врачом.
7. Свяжитесь с врачом, если у вас есть какие-либо медицинские вопросы, следует прекратить использование и проконсультироваться с врачом.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы:

1. Принимаете рецептурные или безрецептурные препараты, которые, как известно, вызывают светочувствительность. Более подробную информацию и список лекарств, которые могут вызывать светочувствительность, можно найти на сайте: <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>.
2. Обнаружили какие-либо подозрительные или раковые образования.
3. Имеете какие-либо нарушения светочувствительности или генетические заболевания глаз.

Перед использованием проверьте себя на светочувствительность:

1. Включите устройство.
2. Помойте и высушите руки, а затем проведите полную 10-минутную процедуру.
3. После завершения процедуры визуально проверьте зону воздействия. Если зона покраснела и держится более 2 часов, значит, у вашей кожи есть чувствительность к свету. Верните прибор в компанию CurrentBody в течение 14 дней для полного возмещения стоимости.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Установка:

1. Распакуйте светодиодный перфектор для рук CURRENT-BODY Skin™.
2. Выберите соответствующую вилку для вашей страны, включите ее в розетку электросети.

Инструкция по применению:

1. Перед использованием помойте и полностью высушите руки.
2. Включите устройство и поместите руки в устройство.
3. светодиодный перфектор для рук CURRENTBODY Skin™ оснащен функцией автоматического отключения после завершения 10-минутной процедуры.
4. Протрите устройство (см. инструкции по чистке).
5. Поместите устройство в мешочек для хранения.



## Полезные советы Для достижения наилучших результатов:

1. Используйте ежедневно.
2. Используйте прибор только на чистой, сухой коже.
3. Не используйте прибор после нанесения кремов с SPF, так как это может блокировать проникновение света.
4. Сразу после процедуры нанесите сыворотку или увлажняющий крем по вашему выбору.

## Обслуживание:

1. Данное устройство не имеет обслуживаемых деталей. Пользователи не должны пытаться обслуживать устройство, так как это приведет к его повреждению и аннулированию гарантии.
2. Устройство включает только кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Все настройки установлены на заводе-изготовителе.

## Чистка:

1. Выключите устройство и отсоедините его от любого источника питания.
2. После каждого использования протирайте верхние части светодиодов спиртовыми салфетками или влажной тканью, чтобы удалить остатки кожных масел.
3. Очистите корпус устройства с помощью влажной ткани или ткани из микрофибры.
4. Перед использованием дайте устройству полностью высохнуть.

## बॉक्स में क्या है

1. करेटबॉडी स्कनि™ हैड परफेक्टर
2. स्टोरजि बैग
3. बजिली की आपूर्ति और देश बशिष्ट एडेप्टर

## महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी

1. डेविड्स को उस जगह पर न चलाएं जहां यह पानी के संपर्क में आ सकती है।
2. ऐसे पावर एडॉप्टर के साथ डेविड्स का उपयोग न करें जो क्षतगिरस्त या दोषपूर्ण हों। चार्जिंग कॉर्ड को अप्रचि दंग से न मोड़े या उसका दुरुपयोग न करें।
3. डेविड्स को खोलने का प्रयास न करें। डेविड्स उपयोगकर्ता द्वारा सर्विस नहीं हो सकती है। इससे वारंटी रद्द हो जाएगी।
4. यदि आपको लगता है कि डेविड्स खराब है तो उसका उपयोग तुरंत बंद कर दें।

## कस्टमर केयर

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आपको किसी सलाह की आवश्यकता है, तो कृपया वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करें।

## चेतावनी

1. यह ड्रिग्स 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों पर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और शिशुओं या बच्चों पर उपयोग के लिए अनुशंसित नहीं है।
2. यदि आप गर्भवती हैं, या संदेह है कि आप गर्भवती हैं, तो उपयोग करने से पहले कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें।
3. यदि आपको कैसर है, या संदेह है कि आपको कैसर है, तो उपयोग करने से पहले कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें।
4. यदि ड्रिग्स पानी में गरि गया हो तो उसका उपयोग न करें। अगर ड्रिग्स गीला है तो उसका इस्तेमाल न करें।
5. सीधे रोशनी में न देखें क्योंकि इससे अस्थायी असुविधा हो सकती है।
6. यदि आपको त्वचा पछिले उपचार से लाल है या सूजी हुई है तो इसका उपयोग न करें।
7. छूने में दरुद वाली त्वचा, उठी हुई (आस-पास की त्वचा से ऊपर), पपड़ी जमने वाली या खून बहने वाली त्वचा के उपचार के लिए ड्रिग्स का उपयोग न करें। यह अधिक गंभीर स्थितिका संकेत हो सकता है और इसकी आपके डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए।
8. इस उपकरण के किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं है।
9. यदि ऊपरी हसिसा आधार से जुडानही है तो ड्रिग्स का उपयोग न करें।

## चेतावनी

1. यदि ड्रिग्स जूररत से ज्यादा गरम हो जाती है या असुविधाजनक रूप से गर्म हो जाता है तो उपयोग बंद कर दें।
2. उपयोग के बाद हमेशा ड्रिग्स को अनप्लग करें।
3. ड्रिग्स को सीधे धूप में या 100 फारेनहाइट से अधिक तापमान वाले स्थान पर न रखें क्योंकि इससे प्लास्टिक कोटिंग को नुकसान हो सकता है।
4. ड्रिग्स या प्लग को खोलने या मरुमत करने का प्रयास न करें।
5. ड्रिग्स को कठोर सतहों पर न गरिपें, क्योंकि इससे यह क्षतगिरस्त हो सकती है। क्षतगिरस्त ड्रिग्स का उपयोग करने से त्वचा पर चोट लग सकती है।
6. यदि आपको उस त्वचा के बारे में कोई चिंता है जिसका आप उपचार कर रहे हैं, तो आपको इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
7. यदि आपके पास कोई मेडिकल प्रश्न है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें, इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए और अपने चिकित्सक से जांच करनी चाहिए।

## मतभेद

उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से पूछें यदि आप:

1. हलकी संवेदनशीलता पैदा करने के लिए जानी जाने वाली डॉक्टर के पर्चे या ओवर-द-काउंटर दवाएं ले रहे हैं। आप अधिक जानकारी और उन दवाओं की एक सूची प्राप्त कर सकते हैं जो प्रकाश संवेदनशीलता का कारण बन सकती हैं: <https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>।
2. कोई संदग्धि या कैसरयुक्त घाव हो।
3. आंख का कोई प्रकाश द्वारा सहज प्रभावित विकार या कोई अनुवंशिक स्थिति है।

उपयोग करने से पहले प्रकाश संवेदनशीलता के लिए स्वयं का परीक्षण करें:

1. अपने ड्रिग्स को चालू करें।
2. अपने हाथ धोएं और सुखाएं, और फिर पूरे 10 मिनट का उपचार करें।
3. उपचार पूरा होने के बाद, क्पेत्त की जांच करें। यदि क्पेत्त लाल हो गया है और 2 घंटे से अधिक समय तक रहता है, तो आपकी त्वचा प्रकाश के प्रती संवेदनशीलता है। पूर्ण धनवापसी के लिए 14 दिनों के भीतर ड्रिग्स को करंटबॉडी को लौटाएं।

## कैसे इस्तेमाल करें

सेट अप:

1. अपने करंटबॉडी स्कनिंग एलईडी हैड परफेक्टर को अनपैक करें।
2. अपने क्पेत्त के लिए उपयुक्त प्लग का चयन करें और में आउटलेट में प्लग करें।  
उपयोग के लिए निर्देश:
2. उपयोग करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें।
3. ड्रिग्स को चालू करें और अपने हाथों को ड्रिग्स में रखें।
4. करंटबॉडी स्कनिंग एलईडी हैड परफेक्टर में 10 मिनट के उपचार के पूरा होने के बाद एक स्वचालित शटऑफ फंक्शन होता है।
5. ड्रिग्स को पोंछ के साफ कर लें (सफाई निर्देश देखें)।

**सेट अप:**

1. अपने करंटबॉडी स्कनिंग™ एलईडी हैड परफेक्टर को अनपैक करें।
2. अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्लग का चयन करें और मेन आउटलेट में प्लग करें।

**उपयोग के लिए निर्देश:**

2. उपयोग करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें।
3. डविाइस को चालू करें और अपने हाथों को डविाइस में रखें।
4. करंटबॉडी स्कनिंग™ एलईडी हैड परफेक्टर में 10 मिनट के उपचार के पूरा होने के बाद एक स्वचालित शटऑफ फंक्शन होता है।
5. डविाइस को पोंछ के साफ कर लें (सफाई निर्देश देखें)।

**रखरखाव:**

1. इस उपकरण में कोई सर्विस योग्य पुर्जे नहीं हैं। उपयोगकर्ताओं को डविाइस की मरम्मत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे डविाइस क्षतिग्रस्त हो जाएगा और वारंटी समाप्त हो जाएगी।
2. डविाइस में केवल ऑन/ऑफ बटन शामिल है। सभी सेटिंग्स फ़ैक्टरी सेटिंग पर सेट हैं।

**सफाई:**

1. डविाइस को बंद करें और किसी भी पावर स्रोत से अनप्लग करें।
2. प्रत्येक उपयोग के बाद त्वचा के तेल के अवशेष को हटाने के लिए एलईडी के शीर्ष को ऐल्कोहॉल वाइपस या नम कपड़े से साफ करें।
3. नम या माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करके डविाइस की बॉडी को साफ करें।
4. उपयोग करने से पहले डविाइस को पूरी तरह सुखने दें।

HS-70 说明书

成品尺寸: 98\*152mm

材质:封面封底200g双铜过哑膜,内页100g双铜

四色印刷

骑马钉

红色虚线为裁切线不印刷